

प्रसाद विस्मिल, स्वामी श्रद्धानन्द जैसे महान क्रांतिकारी नेताओं तथा अन्य शहीदों और देशभक्तों के स्मारक बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इन स्मारकों का स्वरूप क्या होगा ?

निर्माण, अर्थात् तथा पूति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) :

खर्च को गया खर्च को जानेवाली वार्षिक राशि प्रतिरिक्त संभावित अनुरक्षण राशि की अनुमानित लागत

(रुपये लाखों में)

| | | | |
|-------------|-------|-------|------|
| 1. राजघाट | 1.00 | 43.26 | 1.31 |
| 2. शान्तिवन | 10.30 | 24.39 | 0.17 |
| 3. विजयघाट | 1.90 | 0.49 | 0.10 |

(ग) और (घ). सार्वजनिक खर्च पर मूर्तियां स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के द्वारा आरम्भ नहीं किया जाता। ऐसे प्रस्तावों को नगर पालिका, निकायों, गैर सरकारी संगठनों अथवा व्यक्तियों जो कि इस संघ में पूरा व्यय वहन कर सके, को प्रवर्तन करना होता है।

मूर्तियां स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी पार्टियों से कुछ निम्नांकित प्रस्ताव मिले हैं :—

1. श्री सुभाषचन्द्र बोस बगैर किसी वित्तीय प्रस्ताव के
2. सरदार भगतसिंह वित्तीय सहायता से

3. स्वामी श्रद्धानन्द वित्तीय सहायता से इन मूर्तियों को स्थापित करने लिए स्थान का चयन विचाराधीन है।

Krishna Water Dispute

129. SHRI ESWARA REDDY:
SHRI K. SURYANARAYANA:
SHRI RAM AVTAR SHARMA:
SHRI SHIV KUMAR SHASTRI:
DR. SURYA PRAKASH PURI:

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) the further efforts which have been made by the Centre to resolve the dispute between Andhra Pradesh, Mysore and Marashtra over the sharing of Krishna river waters;

(b) whether these efforts have yielded any results; and

(c) if not, the further steps which Government propose to take to find an early solution to the dispute?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (a) to (c). As the disputes in respect of the Krishna and Godavari rivers could not be settled by negotiations, steps are being taken to refer these disputes to tribunals under the Inter State Water Disputes Act, 1956.

उत्तर भारत में पेय जल की अत्यधिक कमी

130. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर भारत के लोगों को पेय जल की अत्यधिक कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है जो ग्रीष्म काल में और भी भयंकर रूप धारण कर लेती है; और